Escorts Finance Limited

15/5, Mathura Road, Faridabad-121003 (HR)

 Phone
 : 0129-2250222, 2564222

 E-mail
 : escortsfinance@escorts.co.in

 Website
 : www.escortsfinance.com

 CIN
 : L65910CH1987PLC033652



May 11, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 051 Scrip Code – 511716

Sub: Newspaper publication for audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2021

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company had published the enclosed extract of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2021 in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated May 11, 2021.

The above is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Escorts Finance Limited

Vicky Chauhan
Company Secretary

Encl: As above

₹33,000 cr transferred to wheat farmers in Punjab, Haryana

FE BUREAU New Delhi, May 10

AFTERTRANSFERRING MORE than ₹33,000 crore to bank accounts of farmers in Punjab and Haryana in the ongoing wheat procurement season, the Centre has said the transition to direct benefit transfer (DBT) from the earlier practice of routing it through arhatiyas (commission agents) has been

smooth in the two states. Procurement of wheat has also progressed well despite the second wave of Covid-19. The Centre has reached the target of 21 million tonne (MT) a fortnight before the closure of the official purchase in Punjab



and Haryana, the epicentres of the farmers' agitation.

"Change (to DBT mode) was smoother and beyond our expectations," food secretary Sudhanshu Pandey said on Monday while briefing reporters about procurement of wheat and implementation of the "one nation, one ration card" scheme. He said farmers

were happy receiving the money directly in their accounts, even though there is a lag of 48-72 hours between when they bring the grains and receive the payment.

Wheat procurement in the ongoing season has reached 33.8 MT as of May 9, which is 36% higher than year-ago period and close to 80% of this season's total target. As procurement in Madhya Pradesh has been lower at 9.5 MT compared with Punjab, despite a higher target at 13.5 MT, Pandey said the purchases in MP will continue till June 15. Uttar Pradesh is also on course to achieve its target of 5.5 MT (actual is 2 MT so far), he said.

Punjab, Haryana, UP and MP together comprise over 90% of wheat production.

Speaking about the government's open-ended procurement policy, the food secretary said nearly two-third of the annual procurement of rice and wheat is used under various schemes, including the National Food Security Act (NFSA), leaving a huge surplus every year. "A long-term solution is required to manage the surplus. Discussion is happening among various ministries on this issue keeping in mind an annual outgo of foreign exchange worth ₹1 lakh crore on import of edible oils and pulses," Pandey said.

Govt rules out possibility of free grains for migrants

THE GOVERNMENT ON

Monday ruled out the possibility of free foodgrain distribution to migrants, saying there is no panic and no complete national lockdown unlike last year. However, it has started distributing additional free grains again under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for May and June to 80 crore ration cardholders. The government said there is no impact on prices of grain in the open market due to free distribution under the scheme.

"Migrant crisis is not as big as it was last year ... It is not a complete national lockdown," food secretary Sudhanshu Pandey said in a virtual press meet.

Oriental Aromatics Ltd.

Regd. Office: 133, Jehangir Building, 2nd Floor, M.G. Road, Mumbai – 400 001 CIN: L17299MH1972PLC285731 Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2021

Rs. In Lakh (Except Per Share Data)

	Particulars	Standalone			Consolidated	
Sr.		Quarter Ended 31.03.2021	Year to Date 31.03.2021	Quarter Ended 31.12.2020	Quarter Ended 31.03.2021	Year to Date 31.03.2021
No						
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	22,268.52	71,059.24	17,338.48	22,250.13	71,048.96
2.	Net Profit /(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	2,979.56	13,745.13	3,111.28	2,932.21	13,695.82
3.	Net Profit /(Loss) for the period (after tax and exceptional items)	2,141.49	10,242.65	1,431.95	2,240.74	10,193.76
4.	Total Comprehensive Income for the period	2,161,51	10,207.07	1,403.85	2,260.77	10,158.18
5.	Paid-up Equity Share Capital (FV of Rs.5/- each)	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68
6.	Earnings per Share (EPS)					
	- Basic & Diluted EPS	6.36	30.44	4.25	6.66	30.29

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. These unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 10th May 2021. The Statutory Auditors have reviewed the same in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2) The full format of above extract of Financial Results, together with the Report of the Statutory Auditors are available on website of the Stock Exchanges vis. www.bseindia.com & www.nseindia.com and also under "Investor Relations" link of Company's website www.orientalaromatics.com

For Oriental Aromatics Ltd.

Kiranpreet Gill

Company Secretary & Compliance Officer

Procurement norms relaxed for two ministries, DRDO

THE GOVERNMENT HAS made sweeping changes in the way departments procure medical supplies, including allowing procurement of the same item at different rates due to the

Covid-19 outbreak. The Department of Expenditure has allowed global tenders to be floated for less than ₹200 crore as well. The Department of Expenditure, under the Ministry of Finance, on April 24 issued special instructions relating to relief operations for Covid-19 pandemic and said that the prevailing health emergency on account of the unprecedented surge in Covid-19 cases requires immediate procurement of certain items in

quantities which may not be available with a single supplier and/orwithin the time frame in which they are needed.

In view of the urgency involved, these instructions, which are applicable to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Health and Family Welfare (including) Department of Health Research) and Defence Research and Development Organisation (DRDO), have been issued for any emergent purchases and transportation of medical and other essential supplies related to Covid-19.

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Mumbai International Airport Ltd. ("MIAL") invites experienced, competent and resourceful Original Equipment Manufacturer (OEM) or authorized System Integration (SI) Partner of OEM for pre-qualification for undertaking the work to "design, develop, configure, commission, integrate, test and migrate from existing to new system of Voice telephony communication system including end devices" at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ("CSMIA").

Interested OEM's or SI's having relevant experience of installation and commissioning of similar systems at different large mission critical campuses are requested to visit the website: www.csmia.aero → Corporate → Partnerships → Business opportunities → Operation Procurement to download the EOI application forms for pre-qualification of bidders. Parties must submit completed form along with their credentials, detailed specifications of product's offered as per relevant standards, list of clients, company's last three years turnover details etc within 7 days from the date of the advertisement to the given email address: mial.voiceproject@gvk.com.

This invitation for EOI does not give any right to the prospective OEM's or SI's and is not an offer or an invitation to offer. MIAL reserves the right to accept or reject any or all the EOIs or modify the terms hereof without assigning any reasons.

MARKET CSC 264 LIG.

PASCHIM VIHAR, NEW DELHI - 110063 Tel: + 91-8506828889 FORM NO. INC-26

COMPANIES ACT 2013 AND CLAUSE (A) OF SUB-SECTION (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES 2014

IN THE MATTER OF M/S AIRLING SOFTWARE PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED

ompany proposes to make an application to the Companies Act 2013, seeking confirmation of 3RD DAY OF MAY, 2021 to enable the company to Delhi" to "State of Harvana"

he proposed change, may deliver either on MCA ortal (www.mca.gov.in) by filling investor ground of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Paryavarar Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office et at Off. No. 1, 1st Fir, A-2 Market CSC 264 LIG Paschim Vihar New Delhi - 110063. For and on behalf of the Applicant

For AIRLING SOFTWARE PRIVATE LIMITED SUBASH ALAMBILAN KOROTH (DIN: 08549342) Place: New Delhi

Vimta

Ministry of Corporate Affairs effective 7th September, 2016.

Place : Mumbai

Date: 10/05/2021

VIMTA LABS LIMITED

Phone 91-40-2726 4141, E-mail :shares@vimta.com; URL : vimta.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account (As per section 124(6) of the Companies Act, 2013)

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("the Rules") notified by the

The Rules, interalia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders who have not claimed the dividend amount for continuous period of seven years intimating that their shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website at www.vimta.com. Shareholders are requested to refer to thelink https://vimta.com/downloads/Unclaimed%20Dividend%20Data%20-%202013-2014.pdf on the website to verify

Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Company/Registrar on or before 10.08.2021 with a request for claiming the unclaimed dividend for the year 2013-14 onwards so that the shares are not transferred to IEPF. It may please be noted that If no reply is received by the Company or its Registrar on or before 10.08.2021, Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF, without any further notice, by following due process as enumerated in the Rules which is as under :-

- In case of shares held in physical form by issuance of duplicate share certificate and thereafter transferring the same to IEPF authority. Upon such issue of duplicate share certificate, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable in terms of the said
- ii) In case of shares held in demat mode by transferring shares directly to demat account of IEPF Authority with the help of Depository Participants.

It may be noted that the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

For any clarification on this matter, you may please contact the Company at its registered office address or its Transfer Agents M/s CIL Securities Limited, 214, Raghava Ratna Towers, Chirag Ali Lane, Abids,

Hyderabad: 500001, Phone 040-23203155; email: rta@cilsecurities.com. For Vimta Labs Limited Date: 10.05.2021

Sujani Vasireddi Place: Hyderabad Company Secretary

PI INDUSTRIES LIMITED

CIN: L24211RJ1946PLC000469 Regd. Office: Udaisagar Road, Udaipur - 313 001 (Raj.) Ph: 0294-2492451-55, Fax: 2491946 E-mail: naresh.kapoor@piind.com Website: www.piindustries.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, May 18, 2021, inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2021 and also to recommend final dividend on equity shares, if any, for the financial year ended March 31, 2021.

The above information is also available on the website of the Company i.e. www.piindustries.com and on the website of BSE Ltd. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. www.nseindia.com

The outcome of the meeting shall also be made available on above mentioned websites.

For PI Industries Ltd.

Place: Gurugram Naresh Kapoor Date: 10.05.2021 Company Secretary

♦ Nippon india Mutual Fund Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(CIN - L65910MH1995PLC220793) Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 22 6808 7000 • Fax No. +91 22 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 18

Notice is hereby given that Nippon India Mutual Fund ("NIMF")/ Nippon Life India Asset Management Limited (NAM India) has decided to change the Creation Unit size of Nippon India ETF Gold BeES w.e.f May 17, 2021. The details are as under:

SCHEME	ISIN	CURRENT CREATION UNIT	PROPOSED CREATION UNIT
Nippon India ETF Gold BeES	INF204KB17I5	100,000	115,000

Accordingly the relevant sections of the Schemes Information Document ("SID")/ Key Information Memorandum ("KIM") of the above mentioned scheme shall stand modified. All other features, terms and conditions pertaining to the above mentioned scheme shall remain unchanged.

For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Mumbai May 10, 2021

Authorised Signatory

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



ESCORTS FINANCE LIMITED

Regd. Office: SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017 | CIN: L65910CH1987PLC033652 Website: www.escortsfinance.com | Email:escortsfinance@escorts.co.in | Phone: 0129-2564116

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

						Rs. In Lakhs
SI. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.59)	(6.76)	11.82	(1.05)	14.00
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.59)	(6.76)	11.82	(1.05)	14.00
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.59)	(6.76)	11.82	(1.05)	14.00
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(1.59)	(12.75)	6.34	2.74	0.20
6	Equity Share Capital Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	4017.25	4017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year			127	(21,864.40)	(21,867.14
8	Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted	(0.004)	(0.017)	0.029	(0.003)	0.035

The above Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 10 May 2021.

The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs. The Company has a single reportable segment namely financial services (limited to recovery of loan assets) for the purpose of Ind AS-108.

Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter and year ended 31 March 2021:

M/s Escorts Benefit Trust (EBT) in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court to repay the unpaid fixed deposit liability, maintains adequate funds to repay the matured unpaid fixed deposit liability. During the quarter ended on 31 March 2021, EBT has settled the claims to the extent of Rs. 2.49 lacs by repayment to respective fixed deposit holders. The remaining liability towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1060.18 lacs as on 31 March 2021 (Rs. 1062.67 lacs as on 31 December 2020). Deferred Tax Assets has not been recognised in the books of account as there is no virtual certainty of future taxable income.

Complete facts have been disclosed in Note 4 above which is self explanatory and does not call for any further comments.

(a.) Remaining liabilities towards unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs.1060.18 lacs as on 31 March 2021and the same is pending for deposit in Investor Education &

The Company had accumulated losses as at the close of the financial year ended 31 March 2021 with its net worth continuing to stand fully eroded. The Company continues to focus on recovery of old delinquent loan assets through settlement/ compromise /legal action etc. arising out of it's earlier NBFC business. The management is also considering various options to undertake suitable business(es) and therefore the accounts have been prepared on a Going Concern Basis. The Company had issued 10% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each maturing on 30 March 2019. Due to liquidity crunch, the discharge of the said liability before or on

due date of redemption has not been done. The Company has received a No Objection Certificate from the preference share holder extending the maturity period of said Preference Shares

for a further period of 20 years. Accordingly, the Company has filed a petition before National Company Law Tribunal (NCLT) on 29 March 2019 seeking issuance of 1% Cumulative

Redeemable Preference Shares in place of said Preference Shares with new terms and conditions. This aforesaid matter is pending for hearing before NCLT. The Company has assessed the possible impact of Covid 19 on its financial statements based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial results and concluded no adjustment is required in these results. The Company continues to monitor any material changes to the future economic conditions

 The figures for the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary. 11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and on the Company's website www.escortsfinance.com.

By Order of the Board For Escorts Finance Limited Rajeev Khanna Whole Time Director

DIN 08471497

India's covid graph is going up and up. When is this likely to end?



with



Dr Shahid Jameel

Virologist and Director Trivedi School of Biosciences, Ashoka University

More than 3.5 lakh infections are being reported every day. There is an alarming rise in the

number of deaths. People are struggling to find beds, oxygen cylinders or ICUs. Hospitals and healthcare workers are overstretched and overstressed. How did we reach in this situation? Could the pandemic have been handled better? When is this misery likely to end?


Hear Dr Shahid Jameel, one of India's top virologists and amongst the most prominent voices of reason during this pandemic, try to answer the questions uppermost on the minds of Indians right now.

Dr Jameel will be in conversation with

Amitabh Sinha

Editor, Pune, The Indian Express









To register, SMS - IEEXP <space> "FE" <space> "Your name and email ID" to 56161 Confirmation SMS will be your registration.

PLUTUS Associate Sponsor









Chandigarh

facebook.com/IndianExpress



Place: Faridabad

Date: 10 May, 2021



सूर्यास्तः ०७:०७

सूर्योदयः ०५:28

एक दिन में 53 जिंदगियां लील गया कोरोना

4,359 नए संक्रमित: प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 1,900 पार, सक्रिय मामले ३४ हजार पर पहुंचे

शिमला, 10 मई (जनसता)।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 53 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इन 53 मौतों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा 19 सौ के पार चला गया है। प्रदेश में आज 4,359 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 34 हजार के पार पहुंच गया है। जिला कांगडा में सिक्रय मामलों का आंकडा दस हजार को पार कर गया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल और रिपन में ही 13 मौतें हुई है। कसुम्प्टी के 32 साल के एक मरीज को आइजीएमसी में बीते रोज दोपहर बाद लाया गया था। इस मरीज ने बीती रात को दम तोड दिया।

राजधानी के ही कृष्णा नगर के 60 साल के एक मरीज को तीन मई को अस्पताल लाया गया था। इसकी भी बीती रात को मौत हो गई। समरहिल की एक 45 साल की महिला को आठ मई को आइजीएमसी लाया गया था। इस महिला ने भी बीती रात को दम

देहरादून सीमा पर तियूणी के गांव सैंज हटल की 38 साल की महिला को सात मई को अस्पताल लाया गया था। बीती रात को इस महिला की भी मौत हो गई। हमीरपुर के बिझड के 47 साल के एक मरीज को सात मई को आइजीएमसी लाया गया था। बीती रात को इसकी भी मौत हो गई। रामपुर के 68 साल के एक मरीज को बीते रोज की आइजीएमसी में लाया गया था इस मरीज ने

भी बीती रात को दम तोड़ दिया।

ठियोग की 55 साल की एक महिला सात मई को आइजीएमसी पहुंचाया गया था। आज सुबह आठ बज कर दस मिनट पर इस महिला ने भी दम तोड़ दिया। शिमला जिले के गांव नीरा की 70 साल की महिला ने भी आज सवा दस बजे आइजीएमसी में दम तोड़ दिया जबिक चंबाघाट सोलन की 73 साल की महिला ने सुबह तड़के तीन बजे दम तोड़ा। िसरमौर की पच्छाद की 56 साल की महिला की आइजीएमसी में दोपहर बाद सवा दो बजे के करीब मौत हो गई।

राजधानी के रिपन अस्पताल के गंज बाजार के एक 76 साल के मरीज को चार मई को दाखिल किया गया था। इस मरीज की आज सुबह पांच बज कर दस मिनट पर मौत हो गई। इसी अस्पताल में टूटू के विजय नगर के एक आठ मई को लाया गया था। इस मरीज ने भी आज सुबह सात बजे दम तोड़ दिया।

जिला किन्नौर के सांगला के 54 साल के

एक मरीज को आठ मई को रिपन दाखिल किया गया। आज सुबह ७ बज कर २० मिनट पर इस मरीज की भी मौत हो गई।

उधर जिला कांगडा में पिछले 24 घंटों में 18 मौतें हुई है। इनमें से आठ महिलाएं है। इसके अलावा सोलन में आठ, शिमला में 7, मंडी व सिरमौर में पांच-पांच, चंबा में 4, ऊना में 3, हमीरपुर में 2 और जिला किन्नौर में एक मौत हुई है।

बीती रात से लेकर अब तक प्रदेश में 4,359 नए मामले सामने आए है। इनमें से सबसे ज्यादा 1,543 मामले जिला कांगड़ा से सामने आए हैं। इसके अलावा सिरमौर में

438, ऊना में 424, सोलन में 402, हमीरपुर में 381, बिलासपुर में 317, चंबा में 269, शिमला में 241, कुल्लु में 147, मंडी में 96, किन्नौर में 74 और लाहौल स्पीति में 27 नए मामले सामने आए है।

जिला कांगडा में सक्रिय मामलों का आंकडा 10, 077 तक पहुंच गया है जबिक प्रदेश में सिक्रय मामले 34,417 तक पहुंच गए है।

प्रदेश में कल से बारिश, अंधड़ और ओलाबारी का अंदेशा

शिमला, 10 मई (जनसता)।

ओले गिरने को लेकर नारंगी

मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।

प्रदेश में अगले तीन दिनों में बारिश, ओलाबारीऔर अंधड चलने को लेकर मौसम 24 घंटों में प्रदेश के आठ जिलों में बारिश, अंधड और

चेतावनी जारी की गई है। इसी की नारंगी चेतावनी तरह 12 व 13 मई को छह-छह जिलों के लिए यह चेतावनी जारी हुई है। बीती रात को भी प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मृताबिक बीती रात को पच्छाद में 23 मिलीमीटर, खदराला में 22, बलदवाडा में 12, नाहन व रामपुर में 7, सोलन, गग्गल और अंब में 6, देहरा, गोपीपुर,धर्मपुर और जंजैहली में 5

मौसम साफ रहा। कहीं-कहीं बादल जरूर छाए रहे। मौसम साफ रहने की वजह से प्रदेश का दिन का तापमान उछाल पर आ गया है। विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी की है। आगामी राजधानी का दिन का पारा 23.4 डिग्री तक पहुंच गया है जबिक ऊना का मौसम विभाग ने तीन 36.7 डिग्री दर्ज हुआ है। दिन के लिए जारी

हालांकि आज प्रदेश के अधिकांश भागों मे

पारा 18 डिग्री और कल्पा का 20.4 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा चंबा का 31.3, हमीरपुर 33.5, बिलासपुर 34.8, मंडी का 32.1 ,कांगड़ा का 31.8 और सोलन का दिन का तापमान 29.1

कबाइली इलाकों में केलंग का

डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊना बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश का यह सिलसिला अगले चार दिनों तक चलने वाला है।

निविदा आमन्त्रण सुचना

ग्राम पंचायत पन्जाई की बैठक में प्रधान महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यकता है। अत: इस विषय पर उपस्थित सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सस्ते दर पर सामग्री क्रय करने हेतु अधिकृत विक्रेताओं से सील बन्द लिफाफे में निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 11.05.2021 सार्य 5:00 बजे तक पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं दिनांक 13.05.2021 को प्रात: 11 बजे पंचायत की क्रय कमेटी द्वारा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जाएंगी। अत: सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सभी फर्मों की जानकारी हेतु प्रेषित है।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	मूल्य वांछित सहित
1,	रेत	प्रति घन मीटर
2.	रेत (क्रशर)	प्रति घन मीटर
3.	बजरी 20, 40 एमएम	प्रति घन मीटर
4.	बजरी (क्रशर) 20, 40 एमएम	प्रति घन मीटर
5.	सोलिंग/बोल्डर पत्थर, पत्थर, कट स्टोन पेवर ब्लॉक	प्रति घन मीटर
6.	पक्की इंट	प्रति 1000
7.	सामग्री की ढुलाई सड़क से कार्य स्थल तक	प्रति कि०मी०
8,	सरिया 8,10,12,16,20 मि०मि० डाया	प्रति किव०
9,	शटरिंग	प्रति वर्ग मी०
10,	सीमेंट पेवर ब्लॉक	प्रति वर्ग
11.	आयरन दरवाजे व खिडकी एवं रैलिंग आयरन	प्रति घन मीटर
12,	कम्पूयटर, प्रिंटर, सीपीय्, यूपीएस	प्रति एक
13,	क्रेट वायर, सीजीआई शीट	प्रति एक
14.	सीमेंट	प्रति वैग
15,	पेयजल पानी की टंकी (प्लास्टिक व लोहे की)	प्रति एक
16.	डस्टबिन	प्रति एक
17,	बोर्ड राईटिंग	प्रति
18.	सीमेंट हाफ कट पाईप	प्रति एक
19.	जेसीबी (कट स्टोन ब्रेकर)	प्रति घण्टा
20.	पेंट / बाधरूम सामान, टाईल्स इत्यादि	प्रति
21.	लकडी के खिड़की व दरवाजे	प्रति घन मीटर
22.	प्लाईबोर्ड कॉर्नर टीक प्लाई इत्यादि	प्रति घन मीटर

- 1. लोअर डोभा से झुलका, 2. कामुनाला से दली 3. डोभा रोड़ से चाहला, 4. बंगसेहड़ से नैणी
- 5. बुणी कैंची से अप्पर बुणी, 6. शाधड़ी देवता से जैन्झीगाड़
- निविदादाता के पास अपना पंजीकरण, जीएसटी टिन नं., पैन नंबर होना आवश्यक है।
- ठेकेदार/आपर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित एम फार्म प्राप्त करवाने होंगे। निविदाएं केवल डाक द्वारा ही पंचायत कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी।
- सभी निर्माण सामग्री कार्य स्थल तक उपलब्ध करवानी होगी।

घोड़े ढलवान

के स्टेशन

SI. Particulars

1 Total income from Operations

Equity Share Capital

Protection Fund.

- ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र अधिकार में एक ही दर मूल्य देव होगा। निविदादाता यदि समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस पर सामग्री की देव ग्रेशि का भूगतान नहीं किया
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने, सामान दर रहने की स्थिति में, एक या एक से अधिक निविदादाताओं के लिए कार्य आदेश निर्गत करने, सामग्री की गुणवता के चयन तथा निविदाएं किसी भी
- समय रदद करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा।
- निविदाएं दिनांक 03:05:2021 से दिनांक 11:05:2021 सांध 5 बजे तक ही स्वीकार की आएंगी, दिनांक 03.05.2021 से पहले एवं दिनांक 11.05.2021 के बाद प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी।

2 Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

4 Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

5 Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period

7 Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of

8 Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted

The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs

Deferred Tax Assets has not been recognised in the books of account as there is no virtual certainty of future taxable income.

Complete facts have been disclosed in Note 4 above which is self explanatory and does not call for any further comments.

Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter and year ended 31 March 2021.

undertake suitable business(es) and therefore the accounts have been prepared on a Going Concern Basis.

The figures for the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

The Company has a single reportable segment namely financial services (limited to recovery of loan assets) for the purpose of Ind AS-108.

towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1060.18 lacs as on 31 March 2021 (Rs. 1062.67 lacs as on 31 December 2020).

Redeemable Preference Shares in place of said Preference Shares with new terms and conditions. This aforesaid matter is pending for hearing before NCLT.

results and concluded no adjustment is required in these results. The Company continues to monitor any material changes to the future economic conditions.

(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)

Paid-up Equity Share Captial (Face value of Rs.10/- each)

Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

गाड़ी स्टेशन से रेत बजरी का रेट पूरे पंचायत क्षेत्र में एक ही रहेगा।

ग्राम पंचायत पन्जाई, जिला मण्डी (हि०प्र०)

ESCORTS FINANCE LIMITED

Regd. Office: SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017 | CIN: L65910CH1987PLC033652

Website: www.escortsfinance.com | Email:escortsfinance@escorts.co.in | Phone: 0129-2564116

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The above Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 10 May 2021.

M/s Escorts Benefit Trust (EBT) in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court to repay the unpaid fixed deposit liability, maintains adequate funds to repay the matured unpaid fixed deposit liability. During the quarter ended on 31 March 2021, EBT has settled the claims to the extent of Rs. 2.49 lacs by repayment to respective fixed deposit holders. The remaining liability

(a.) Remaining liabilities towards unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs. 1060.18 lacs as on 31 March 2021 and the same is pending for deposit in Investor Education &

7. The Company had accumulated losses as at the close of the financial year ended 31 March 2021 with its net worth continuing to stand fully eroded. The Company continues to focus on

recovery of old delinquent loan assets through settlement/ compromise /legal action etc. arising out of it's earlier NBFC business. The management is also considering various options to

निविदा आमन्त्रण सूचना

ग्राम पंचायत काण्डा की बैठक में प्रधान महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेत् निर्माण सामग्री की आवश्यकता है। अत: इस विषय पर उपस्थित सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सस्तें दर पर सामग्री क्रय करने हेतु अधिकृत विक्रेताओं से सील बन्द लिफाफे में निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 11.05.2021 सार्य 5:00 बजे तक पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं दिनांक 13.05.2021 को प्रात: 11 वर्ज पंचायत की क्रय कमेटी द्वारा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जाएंगी। अत: सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सभी फर्मों की जानकारी हेत् प्रेषित है।

क्र.सं.	साम	प्री का विवरण	मूल्य वांछित सहित
1.	रेत	***************************************	प्रति घन मीटर
2.	रेत (क्रशर)	प्रति घन मीटर	
3.	बजरी 20, 40 ए	प्रति घन मीटर	
4.	बजरी (क्रशर)	प्रति घन मीटर	
5.	सोलिंग/बोल्डर ।	पत्थर, पत्थर, कट स्टोन पेवर ब्लॉक	प्रति घन मीटर
6.	पक्की ईंट	11.090 - 1001.72.00 - 540 11/15 - 10.01	प्रति 1000
7.	सामग्री की ढुलाइ	र्द सड़क से कार्य स्थल तक	प्रति कि०मी०
8.	सरिया 8,10,12	,16,20 मि०मि० डाया	प्रति किव०
9.	शटरिंग		प्रति वर्ग मी०
10.	सीमेंट पेवर ब्लॉर	क	प्रति वर्ग
11.	आयरन दरवाजे	प्रति घन मीटर	
12,	कम्पूयटर, प्रिंटर	प्रति एक	
13.	क्रेट वायर, सीर्ज	प्रति एक	
14.	सीमेंट		प्रति वैग
15,	पेयजल पानी की टंकी (प्लास्टिक व लोहे की)		प्रति एक
16,	डस्टबिन		प्रति एक
17.	बोर्ड राईटिंग	प्रति	
18.	सीमेंट हाफ कट	पाईप	प्रति एक
19.	जेसीबी (कट स्ट	प्रति घण्टा	
20,	पेंट ∕ बाधरूम स	प्रति	
21,	लकडी के खिड़	प्रति घन मीटर	
22,	प्लाईबोर्ड कॉर्नर टीक प्लाई इत्यादि		प्रति घन मीटर
घोड़े ढलवान के स्टेशन		1. खणी से काण्डा 2. खणी से खाहड़ 3. खणी से सरापेखरी 4. खणी से हुन्ज	6. खणी से शिवाड़ी 7. खणी से जाउनी 8. खणी से गराईड़ी 9. खणी से खनार

- निविदादाता के पास अपना पंजीकरण, जीएसटी टिन नं., पैन नंबर होना आवश्यक है।
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित एम फार्म प्राप्त करवाने होंगे।

Quarter ended

31.03.2020

(Audited)

23.94

11.82

6.34

4,017.25

0.029

31.12.2020

(Unaudited)

(6.76)

(6.76)

(12.75)

4017.25

(0.017)

31.03.2021

(Audited)

(1.59)

(1.59)

(1.59)

4017.25

(0.004)

- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने, सामान दर रहने की स्थिति में, एक या एक से
- अधिक निकिदादाताओं के लिए कार्य आदेश निगंत करने, सामग्री की गुणवता के चयन तथा निविदाएं किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाएं दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 11.05.2021 साथ 5 वजे तक ही स्वीकार की जाएंगी, दिनांक
- 03.05.2021 से पहले एवं दिनांक 11.05.2021 के बाद प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी।
- 10. गाड़ी स्टेशन से रेत बजरी का रेट पूरे पंचायत क्षेत्र में एक ही रहेगा।

प्रधान/सचित ग्राम पंचायत काण्डा. जिला मण्डी (हि०प्र०)

Rs. In Lakhs

31.03.2020

(Audited)

50.30

14.00

14.00

14.00

0.20

4,017.25

(21,867.14)

0.035

Year ended

31.03.2021

(Audited)

27.32

(1.05)

(1.05)

(1.05)

2.74

4,017.25

(21,864.40)

(0.003)

10, खणी से चताहिल

केंद्र को सलाह के साथ खरी-खोटी सुनाई

जबिक शिमला और धर्मशाला में पांच-पांच

धर्मशाला, 10 मई (जनसत्ता)।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता क्मार ने टीकाकरण को कोरोना का सबसे बढिया इलाज बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड टीका बनाने के लिए स्वदेशी कंपनियों को अनिवार्य रुप से लाईसेंस जारी करने की गुजारिश की है।

टीकाकरण के जरिए इस महामारी को काबू करने वाले इजरायल की मिसाल देते शांता ने कहा है कि भारत में भी सभी लोगों को टीका लगना चाहिए, मगर पेटेंट कानून की बंदिश के कारण स्वदेशी कंपनियां इस टीके को तैयार नही कर पा रही। शांता ने दलील दी है कि पेटेंट के नाम पर देश को लुटने वाली विदेशी बहराष्ट्रीय दवाई कंपनियों को लेकर उन्होंने 2011-12 में संसद की स्थाई सिमिति के अध्यक्ष होने के नाते ब्रांडेड और जैनरिक दवा उद्योग पर गहरा अध्ययन करके रपट सरकार को दी थी।

कहा. कोविड के टीके के लिए दें स्वदेशी कंपनियों को लाइसेंस

उन्होंने कहा, तब वायर कंपनी की कैंसर की एक दवाई मैक्सावार 2 लाख 80 हजार में बिक रही थी और रोगी बहुत परेशान थे। उस समय की सरकार ने नियमों का अध्ययन किया और किसी आपात स्थिति में स्वदेशी कंपनी को अनिवार्य लाईसेंस देने की जानकारी सामने आते ही जब उसी दवाई का लाईसेंस हैदराबाद की नैटको कंपनी को दिया, तो लाखों में बिकने वाली उसी गुणवत्ता की वही दवा 88 सौ में बिकने लगी। कंपनी ने पेटेंट नियंत्रक के पास मुकदमा किया ऐतिहासिक निर्णय में सरकार की जीत हुई उसके बाद उच्च न्यायालय ने आपात स्थिति में किसी कंपनी को दवा बनाने की अनुमित का सरकार को अधिकार देने का निर्णय सुनाया।

दरअसल शांता का कहना है कि बीस साल के

बाद दवाईयों का पेटेंट समाप्त होने के बाद उन्हें कोई भी कंपनी बना सकती है। उन दवाईयों को जैनरिक दवाई कहा जाता है। जैनरिक दवाइयों की फार्मेसी के तौर पर प्रसिद्धि के कारण ही विश्व अमेरिका और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अलावा यूनिसेफ भी भारत की जैनरिक दवाईयां खरीदते है। मगर ब्रांडेड दवाईयों के नाम पर विदेशी कंपनियां गरीबों को लूट रही है। शांता ने कहा कि पड़ताल के दौरान उनके अध्यक्षता वाली समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची थी कि भारत के गरीबों को जैनरिक दवाईयां इस लिए नहीं मिलती क्योंकि कंपनियों की ओर से दिए जाने वाली कमीशन के चलते भारत में बहुत से डाक्टर रोगी की पर्ची पर केवल ब्रांडेड दवाई लिखते है।

उन्होंने कहा कि आज के हालात उससे भी भयंकर है। सरकार जल्दी टीका बनाने का भारतीय कंपनियों को अनिवार्य लाईसेंस दें। करोडों में उत्पादन हो।

कांग्रेस ने की कृपाल परमार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग

धर्मशाला, 10 मई (जनसत्ता)।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ.राजेश शर्मा ने फतेहपुर के खंड चिकित्सा अधिकारी को फोन पर धमकाने को लेकर भाजपा नेता कृपाल परमार के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग उठाई है। सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में डॉ.शर्मा का कहना था कि महामारी के इस दौर में जय राम ठाकुर की सरकार जनहित के हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है।

उन्होंने कहा कि अपनी इस असफलता की भड़ास भाजपा सरकार और उसके नेता कोरोना योद्धाओं के उपर निकाल रहे है। डॉ. राजेश ने कहा कि शनिवार को सोशल मीडिया में फतेहपुर से भाजपा नेता कृपाल परमार और स्थानीय बीएमओ के बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। इसमें फतेहपुर के बीएमओ को परमार फोन पर धमिकयां और गालियां दे रहे हैं।

एक सप्ताह में छह फीसद बढ़ी कोरोना संक्रमण की दर

शिमला, 10 मई (जनसता)।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 20.4 फीसद से 26.3 फीसद तक हो गई है। पिछले एक सप्ताह में इस दर में छह फीसद की बढोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश भर में 3 मई से 9 मई तक कोरोना संक्रमित होने की दर 26.3 फीसद दर्ज की गई जबकि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच यह दर 20.4 यह फीसद थी।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में पिछले सप्ताह 20 फीसद से अधिक पॉजीटीविटी दर दर्ज की गई। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कोविड के लिए परीक्षण की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह में कोरोना जांच का आंकड़ा एक लाख से अधिक रहा। इस दौरान लगभग 10,2455 कोरोना

जांच की गई। इससे पिछले सप्ताह में 84,351 जांच की गई थी। अगर पिछले दो सप्ताह में मृत्यु दर की तुलना की जाए तो पिछले सप्ताह मृत्यु दर 1.38 फीसद से घटकर 1.17 फीसद हुई है।

प्रवक्ता बताया कि राज्य स्तरीय कोविड क्लीनिकल समिति विभिन्न हितधारकों के साथ क्षमता आधारित सत्र आयोजित करवा रही है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के क्षमता अनुरूप उपयोग के संबंध में 8 व 9 मई को गृह संगरोध में रहने वाले मरीजों के प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया गया।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अधिकारियों ने आज, सोमवार को बाल चिकित्सा, महामारी प्रबन्धन और संक्रमण रोकथाम संबंधी प्रबन्धन पर आधारित वेबीनार भी आयोजित किया।

कोरोन बंदी में नियम तोड़ने पर पुलिस ने काटे ६६८ चालाना, ४.८९ लाख जुर्माना

मंडी, 10 मई (जनसत्ता)।

'पिछले तीन दिनों में पुलिस ने सैंट्रल जोन के पाचं जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में नियमों का उल्लंघन करने वालों के 668 चालान काटे डीआइजी सैंट्रल जोन मधुसूदन शर्मा जीएस बाली का। का। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में भी चालान काटे गए।

कांगड़ा-चंबा के लिए तीन निशुल्क एंबुलेंस शुरू करेगी कांग्रेस: बाली

धर्मशाला, 10 मई (जनसत्ता)।

'कोरोनाकाल में कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के लिए हम तीन निशुल्क एंबुलेंस शुरु करने जा रहे हैं और इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में यह सेवा शुरू की जाएगी।' यह और 4.89 लाख रुपए जुर्माना कहना है पूर्व मंत्री और कोरोना वसूला गया।' यह कहना है राहत कार्य समिति कांग्रेस के प्रमुख

पार्टी आलाकमान की ओर से उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के गठित कोरोना राहत कार्य समिति दौरान पुलिस ने नियमों का बेहतर की कमान मिलने के बाद सोमवार एक किट वितरण करने के अलावा सिर पर गंभीर चोटें लगने से उसकी ढंग से पालन करवाया और नियमों को मीडिया कर्मियों से बाली ने सिमित ने लोगों की मदद के लिए मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी को तोडने वालों पर कार्रवाई भी कहा कि कांग्रेस का मकसद इस 24 घंटे काम करने वाला एक अमल में लाई गई। उन्होंने बताया समय कोरोना बीमारी से लोगों को हेल्पलाइन नंबर 01892-260038 कि इसके अलावा तीन दुकानों के बचाना ओर लोगों को जागरुक शुरू किया है। इसी तर्ज पर पूरे करना है। जिसके तहत प्रदेश को प्रदेश में ये सेवाएं की जानी हैं।

सेनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है और पहले चरण में समिति के स्वयंसेवी शहर और बाजार को फिर ब्लॉक स्तर गांवों व कस्बों को

सेनिटाइज करेंगे।

बाली ने कहा कि कई जगह कोरना मृतकों के अंतिम संस्कार करने में पेश आ रही दिक्कत को दुर करने के लिए कुछ दस्ते तैयार किए है जो पूरे एहतियात के साथ शवों का दाह संस्कार करेंगे। जबिक कोरोना योद्धाओं को एक-

हादसे में गई युवक की जान

धर्मशाला, 10 मई (जनसता)।

ऊना जिले के अंब उपमंडल के तहत रामनगर नकड़ोह में देर रात हुए सड़क हादसे में 26 साल के बाइक सवार एक युवक राहुल की की मौत हो गई। मृतक घनारी तहसील के चलेट गांव का निवासी था। चलेट से मुबारिकपुर जा रहे राहुल की बाइक को नकड़ोह में विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। सुष्टि पांडे ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस ने पिरथीपुर गांव के निवासी स्कॉर्पियो चालक चमेल को हिरासत में ले लिया है।

मंडी

कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए घरों में दुबके लोग

कोरोना कर्फ्यू में चौथे दिन दिखी ज्यादा सख्ती

मंडी, 10 मई (जनसता)।

जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती व दुकानों को खोलने का समय महज तीन घंटे करने के बाद कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए जरूरी लोगों को घरों में रहने के लिए मजबुर करने में सोमवार को



रहे हैं। देने से निर्माण कार्यों पर भी असर नजर आया क्योंकि निर्माण स्थलों

पर सामग्री के कम हो जाने की स्थिति में उसे खरीद कर लाने का कोई साधन नहीं है। मजदूर भी काम पर कम ही गए। बैंकों, डाकघरों व अन्य जरूरी सेवाओं के कार्यालयों में भी बहुत कम लोग आए। जिस तरह से सोमवार होने के बावजूद लोगों ने कोरोना कर्फ्यू को लाकडाउन से भी ज्यादा कामयाब बना दिया उससे लगने लगा है कि लोग अब इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी जबिक निर्माण कार्य के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। ऐसा ही चलता जरूरी सामान की दुकानें बंद कर रहा है तो यह उम्मीद है कि जल्द ही संक्रमितों का आंकड़ा नीचे

आएगा और राहत मिलने लगेगी।

Chandigarh

By Order of the Board For Escorts Finance Limited Rajeev Khanna

8. The Company had issued 10% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each maturing on 30 March 2019. Due to liquidity crunch, the discharge of the said liability before or on due date of redemption has not been done. The Company has received a No Objection Certificate from the preference share holder extending the maturity period of said Preference Shares. for a further period of 20 years. Accordingly, the Company has filed a petition before National Company Law Tribunal (NCLT) on 29 March 2019 seeking issuance of 1% Cumulative 9. The Company has assessed the possible impact of Covid 19 on its financial statements based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial आ रही है। 11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and on the

सरकार को कामयाबी मिलती नजर के लिए कर्मचारियों को अपने ही कोरोना कर्फ्यू के चौथे दिन लोगों ने घरों में ही रहना मुनासिब सोमवार को कार्येदिवस होने के समझा। इसका असर यह हुआ कि बावजूद सड़कों पर सन्नाटा रहा और 10 से 1 बजे तक की जो सामान लोगों ने घरों से निकलना सही नहीं खरीदने की छूट थी उसके आगे पीछे समझा। सोमवार को एचआरटीसी व के समय में सड़कों पर पूरी तरह से निजी बसें पूरी तरह से बंद रही। सन्नाटा छाया रहा। पुलिस भी मुस्तैद

जरूरी सेवाओं के कार्यालयों में जाने

वाहन से जाना पडा। बसों पर निर्भर

Whole Time Director DIN 08471497

Place: Faridabad

Date: 10 May, 2021

www.readwhere.com

Company's website www.escortsfinance.com.